

For & on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Deepak Arjeja (Chairman cum Managing Director & CEO)
DIN: 00006112

2.M/5 CHANDAN ENTERPRISES
B-90B/68, Alok Nagar, Jaipur House-2, Agra,
Uttar Pradesh-282010
3.SHOBHANA SINGH
90/6 B, Alok Nagar, Jaipur House, Shahaganj,
Agra, Uttar Pradesh-282010

Date: 16/02/2023 Place AGRA Authorised Officer : Cholamandalam Investment And Finance Company Limited

New Delhi

THURSDAY, FEBRUARY 16, 2023

35

Name of the Borrower(s) / Co-Borrower(s)	Description of the Secured Asset (Immovable Property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
Mr. Dharmender Kumar Mrs. Rajani Prospect No. 836536 & 936947	All that piece and parcel of Built-Up Property No. W2 32, Area admeasuring 53 Sq. Yds. (477 Sq. Ft.), Out of Khata No. 47, Situated In The Area Of Village Badhela, Distt. Indra-110018	Rs. 17,51,864/- (Rupees Seventeen Lakh Fifty One Thousand and Eighty Four Only) for Rs. 1,11,800/- (Rupees One Lakh Eleven Thousand and Two Only) for Rs. 94,947/-	14-Nov-2022	13-Feb-2023
Mrs. Poojan, Mr. Surender Kumar (Prospect No. 504092)	All that piece and parcel of 5 Marhobram 5646, With Land Area Ad Measuring 150 Sq Yards, Part Muzaj 32 Canal, Mundraya Kherat No. 56, Khata No. 64 Mundraya, 11/172, 19.22.27.182, Waska Rukhs Mauja Banepur Un, Sonpat, 131001, Haryana, India	Rs. 11,91,250/- (Rupees Eleven Lakh One Thousand Two Hundred Ninety Two Only)	09-Nov-2022	14-Feb-2023
Prof. Dr. Sanjay Singh Mrs. Sanjana Singh Prospect No. IL1607108	All that piece and parcel of Plot No. D-33, Plot No. 002, Admeasuring Carpet Area 360 Sq. Ft., Upt. Back Side (In Vashvas Park, Udam Nagar, New Delhi, India, 110059)	Rs. 25,31,963/- (Rupees Twenty Five Lakh Thirty One Thousand Nine Hundred Sixty Three Only)	20-Sep-2022	13-Feb-2023
Mr. Anup Kumar, Mrs. Deepa Prospect No. IL10172673	All that piece and parcel of Flat No. Up-4, Front Side, Carpet area admeasuring 385 sq. ft., Ganpati Apartments Khata No. - 362, Block-A, Sarabed, Noida (UP)-201307	Rs. 16,85,661/- (Rupees Eighteen Lakh Eighty Six Thousand Six Hundred Sixty One Only)	28-Sep-2022	13-Feb-2023

said Borrowers fail to make payment to IFL HFL as aforesaid, IFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 5) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Plot No. 3030E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Star Showroom, Moti Nagar, New Delhi-110028, Plot No. 3030E, Upper Ground Floor, Main Shivaji Marg, Najafgarh Road, Beside Star Showroom, Moti Nagar, New Delhi-110028, 2nd floor, Noida Sec-16, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301/ Karnal - SCC 8, GF, Mugal Canal, Karnal, Haryana - 132001 OR Corporate Office: IFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana, New Delhi, Date: 16-02-2023 Sd/- Authorised Officer, For IFL Home Finance Ltd

POSSESSION NOTICE - (for immovable property) Rule 8(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of IFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infiniti Housing Finance Ltd.) (IFL HFL) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, a Demand Notice was issued by the Authorized Officer of the company to the Borrower/Co-Borrowers mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of IFL HFL for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

"The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, if the borrower clears the dues of the "IFL HFL" together with all costs, charges and expenses incurred, at any time before the date fixed for sale or transfer, the secured assets shall not be sold or transferred by "IFL HFL" and no further step shall be taken by "IFL HFL" for transfer or sale of the secured assets.

Name of the Borrower(s) / Karmal BRANCH	Description of secured asset (Immovable property)	Total Outstanding Dues (Rs.)	Date of Demand Notice	Date of Possession
Mr. Vinod Kumar, Mr. Dary and Mrs. Umila (Prospect No. 944583)	All that piece and parcel of House No 47, Admeasuring Land Area 1945 Sq. Ft., Carpet Area 1242 Sq. Ft., Built Up Area 1366 Sq. Ft., At Ward No. 7, Indri Karnal 132001, Haryana, India	Rs. 12,23,282/- (Rupees Twelve Lakh Two Hundred Eighty Two Only)	14-Nov-2022	14-Feb-2023

For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office: Karnal - SCC - 408, GF, Mugal Canal, Karnal, Haryana - 132001 or Corporate Office: Plot No. 98, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana
Place: Karnal Date: 16/02/2023 Sd/- Authorised Officer, For IFL Home Finance Limited

RAJDARSHAN INDUSTRIES LIMITED
CIN:L14100RJ1980PLC002145, Web: www.rajdarshanindustrieslimited.com, Mail: info@rajdarshanindustrieslimited.com
Address: 59, Moti Magri Scheme, Udaipur - 313001

Statement of Standalone and Consolidated Un-audited Results for the quarter and period ended December, 2022

Particulars	Standalone						Consolidated						(Rs. in Lakhs)
	Quarter ended		Period ended		Year ended	Quarter ended		Period ended		Year ended			
	31/12/2022	30/9/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	30/9/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021	31/3/2022		
Total Income	43.14	63.39	14.62	191.19	70.16	134.03	43.14	63.39	14.62	191.19	70.16	134.03	
Net Profit for the period before tax, Exceptional and/or Extraordinary items	6.25	28.03	6.28	24.88	44.57	52.78	6.25	28.03	6.28	24.88	44.57	52.78	
Net Profit for the period before tax after Exceptional and/or Extraordinary items	6.25	28.03	6.28	24.88	44.57	52.78	6.25	28.03	6.28	24.88	44.57	52.78	
Net Profit for the period after tax after Exceptional and/or Extraordinary items	4.29	25.83	4.86	19.92	41.69	53.60	4.29	25.83	4.86	19.92	41.69	53.60	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-49.64	114.09	219.21	(4.00)	442.86	325.27	-49.73	113.97	219.53	(3.88)	443.74	326.45	
Equity Share Capital	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	310.83	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year						1831.75						1833.89	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)													
1. Basic:	0.14	0.83	0.16	0.64	1.34	1.72	0.14	0.83	0.17	0.64	1.37	1.78	
2. Diluted:	0.14	0.83	0.16	0.64	1.34	1.72	0.14	0.83	0.17	0.64	1.37	1.78	

EXPLANATORY NOTES:
The results of the Company for the quarter and period ended December 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of directors at its meeting held on February 13, 2023. The same has also been subjected to limited review by the current statutory auditor of the Company.
The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Period ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated 5th July, 2015. The full format of the Quarterly and period ended Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges and on Company's Website
Place: Udaipur
Date: 13/02/2023
For Rajdarshan Industries Ltd
Devendra Sharma
CEO & Managing Director
DIN: 0092174

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

CIRCLE SAHTRA CENTRE- NORTH DELHI, 2ND FLOOR, VIKRANT TOWER, RAJENDRA PLACE, NEW DELHI-110008

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) Rule 8(1) of security interest (Enforcement Rules) 2002

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of the Punjab National Bank under the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 read with Rule 3 of the security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice(s) on the date mentioned against account and stated hereinafter calling upon the below mentioned borrowers/mortgagors/guarantors to repay the amount mentioned herein below within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice.
The below mentioned borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/mortgagors/guarantors and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the properties described herein below, in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned below in the table.
The borrower & guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the below mentioned property and any dealing with the said property will be subject to the charge of Punjab National Bank, for the amounts mentioned herein below beside future interest and other charges/expenses.
The Borrower's/guarantor's/mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTIES

Sr. No.	Name of Account (Borrowers / Guarantor / Mortgagor)	Description of the immovable property	Date of Demand notice & Amount o/s [as mentioned in the Notice u/s 13(2)]	Date of Demand Possession Notice
1	M/s Kanatal Pinnacle House its Proprietor Mr. Vinod Kumar S/o Rajendra, and Guarantor(s) Mr. Satinder Kashyap S/o Gyanendra Kashyap	1) Plot no. 8 Madhya, Chamba Mussorie Phal Patti Yojna, VIII- Tikhon patti Juva, Tehsil- Tehri Garhwal- Area 446 Sq. meter in the Name of Vinod Kumar, Bounded as : East- Road, West: Land of Satyendra Kashyap, North: Land of Satyendra Kashyap South: Forest and Kachha Road 2) Plot no. 8 Madhya, Chamba Mussorie Phal Patti Yojna, VIII- Tikhon patti Juva, Tehsil- Tehri Garhwal- Area 446 Sq. meter in the Name of Satyendra Kashyap,	28-10-2022 Rs. 58,58,560.32 (Rupees Fifty Eight Lakh Fifty Eight Thousand Five Hundred Sixty and Paise Thirty Two Only) as on 30/09/2022 plus interest and incidental expenses incurred by bank w.e.f. 01/10/2022.	10-02-2023

